राजीव कृष्णा, irs पुलिस महानिदेशक एवं राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश



परिपत्र संख्या-**2 ५**/2025 मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र0

सिग्नेचर बिल्डिंग शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ — 226002 फोन नं:0522—2724003/2390240, फैक्स नं:0522—2724009 सीयूजी नं. 9454400101 ई—मेल : police.up@nic.in

> वेबसाईट : https://uppolice.gov.in दिनांक- जुलाई 🗸) ,2025

विषय- BNSS- 2023 में विवेचना हेतु आडियो वीडियो इलेक्ट्रानिक माध्यम का प्रयोग किये जाने सम्बन्धी प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया.

आप सभी को अवगत कराना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 दिनांक 01.07.2024 से लागू हो गयी है, जिसमें श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन (audio video electronic mean) को धारा 2(1)(a) में तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार (electronic communication)को धारा 2(1)(i) में निम्नवत परिभाषित किया गया है-

Section 2(1)(a)-"audio-video electronic means" shall include use of any communication device for the purposes of video conferencing, recording of processes of identification, search and seizure or evidence, transmission of electronic communication and for such other purposes and by such other means as the State Government may, by rules provide;

Section 2(1)(i)-"electronic communication" means the communication of any written, verbal, pictorial information—or video—content transmitted—or transferred (whether from one person to another or from one device to another or from a person to a device or from a device to a person) by means of an electronic device including a telephone, mobile phone, or other wireless telecommunication device, or a computer, or audio-video player or camera or any other electronic device or electronic form as may be specified by notification, by the Central Government;

विवेचना में आडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्रयोग से सम्बन्धित प्रमुख प्राविधान तथा उनके प्रयोग का Legal Mandate निम्नवत है-

Relevant Legal Provision Relevant Legal Provision Legal Mandate PRe or c		RAPHY	TO VIDEOGRA	ED SHA	RY OF LEGAL PROVISIONS RELAT IN BHARATIYA NAGARIK SURAKS		
of person arrested. Provided that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of a Magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is comfortable with and the identification process shall be recorded by any audiovideo electronic means. Sec 105- Recording of search and seizure through audiovideo electronic means. The process of conducting search of a place or taking possession of any property, article or thing under this Chapter or under section 185, including preparation of the list of all things scized in the course of such search and seizure and signing of such list by witnesses, shall be recorded through any audio video electronic means preferably mobile phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.		Recordi			Relevant Legal Provision	. Particulars	S.N.
arrested. Provided that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of a Magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person is comfortable with and the identification process shall be recorded by any audiovideo electronic means. Sec 105- Recording of search and seizure through audio-video electronic means. The process of conducting search of a place or taking possession of any property, article or thing under this Chapter or under section 185, including preparation of the list of all things scized in the course of such search and seizure and signing of such list by witnesses, shall be recorded through any audio video electronic means preferably mobile phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.	apturing signated	Or captur Designa	Mandatory	+	percon	_	1
physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of a Magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is comfortable with and the identification process shall be recorded by any audiovideo electronic means. Sec 105- Recording of search and seizure through audiovideo electronic means. The process of conducting search of a place or taking possession of any property, article or thing under this Chapter or under section 185, including preparation of the list of all things scizure and signing of such list by witnesses, shall be recorded through any audio video electronic means preferably mobile phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.	lace of tification				Provided that if the person identifying		•
supervision of a Magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person is comfortable with and the identification process shall be recorded by any audiovideo electronic means. Search and Seizure Sec 105- Recording of search and seizure through audio-video electronic means. The process of conducting search of a place or taking possession of any property, article or thing under this Chapter or under section 185, including preparation of the list of all things scized in the course of such search and seizure and signing of such list by witnesses, shall be recorded through any audio video electronic means preferably mobile phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.				sel I	physically disabled, such process of		
such person identifies the person is comfortable with and the identification process shall be recorded by any audiovideo electronic means. 2 Recording of Search and Seizure through audio-video electronic means. The process of conducting search of a place or taking possession of any property, article or thing under this Chapter or under section 185, including preparation of the list of all things scizud in the course of such search and seizure and signing of such list by witnesses, shall be recorded through any audio video electronic means preferably mobile phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.					supervision of a Magistrate who shall		
comfortable with and the identification process shall be recorded by any audiovideo electronic means. Sec 105- Recording of search and seizure through audio-video electronic means. The process of conducting search of a place or taking possession of any property, article or thing under this Chapter or under section 185, including preparation of the list of all things scized in the course of such search and seizure and signing of such list by witnesses, shall be recorded through any audio video electronic means preferably mobile phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.					such person identifies the person		
Recording of Search and Seizure through audio-video electronic means. The process of conducting search of a place or taking possession of any property, article or thing under this Chapter or under section 185, including preparation of the list of all things scizure and signing of such list by witnesses, shall be recorded through any audio video electronic means preferably mobile phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.					comfortable with and the identification		
Search and Seizure through audio-video electronic means. The process of conducting search of a place or taking possession of any property, article or thing under this Chapter or under section 185, including preparation of the list of all things scized in the course of such search and seizure and signing of such list by witnesses, shall be recorded through any audio video electronic means preferably mobile phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.					video electronic means.		
seizure electronic means. The process of conducting search of a place or taking possession of any property, article or thing under this Chapter or under section 185, including preparation of the list of all things scized in the course of such search and seizure and signing of such list by witnesses, shall be recorded through any audio video electronic means preferably mobile phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.	lace of		Mandatory		g of bouren und		2
The process of conducting search of a place or taking possession of any property, article or thing under this Chapter or under section 185, including preparation of the list of all things seizure and signing of such list by witnesses, shall be recorded through any audio video electronic means preferably mobile phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.		search fr					
place or taking possession of any property, article or thing under this Chapter or under section 185, including preparation of the list of all things scized in the course of such search and seizure and signing of such list by witnesses, shall be recorded through any audio video electronic means preferably mobile phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.		recovery					
property, article or thing under this Chapter or under section 185, including preparation of the list of all things scized in the course of such search and seizure and signing of such list by witnesses, shall be recorded through any audio video electronic means preferably mobile phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.	•	be mad					
Chapter or under section 185, including preparation of the list of all things scized in the course of such search and seizure and signing of such list by witnesses, shall be recorded through any audio video electronic means preferably mobile phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.	. made	oc mad			property, article or thing under this		
preparation of the list of all things scized in the course of such search and seizure and signing of such list by witnesses, shall be recorded through any audio video electronic means preferably mobile phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.		.".			Chapter or under section 185, including		
seizure and signing of such list by witnesses, shall be recorded through any audio video electronic means preferably mobile phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.	**				preparation of the list of all things		
witnesses, shall be recorded through any audio video electronic means preferably mobile phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.					scized in the course of such search and		
any audio video electronic means preferably mobile phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under sub- section (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.			, 'a		seizure and signing of such list by	1,	
preferably mobile phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.					witnesses, shall be recorded through		
officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.							
recording to the District Magistrate, Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.							
Sub divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.		, •					
Magistrate of the first class. Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.							
Sec 185 (2) - Search by Police officer. A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.							
A police officer proceeding under subsection (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.				, á,	3		
section (1), shall, if practicable, conduct the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.			ii -				
the search in person: Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.							
Provided that the search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.							
under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferably by mobile phone.							
through audio-video electronic means preferably by mobile phone.		ia lada sa					
preferably by mobile phone.	· : - '% .						
	•						
	idence of	Resident	Mandatory	. 7		Information	2
	tim/any		Manuatory	4			5
	place	A. Control of the con	1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
sexual that the person against whom an	Lunia	piace	N _N	100			
offences offence under section 64, section 65,				*			
where the section 66, section 68,					,		1
victim is section 69, section 70, Section 68,	. 15 16 15	All and and	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1
Mentally or 71, section 75, section 76,				· j.			

	physically disabled	section 77, section 78, section 79 or section 124 of the BNS, 2023 is alleged to have been committed or attempted, is temporarily or permanently mentally or physically disabled, then such information shall be recorded by a police officer, at the residence of the person seeking to report such offence or at a convenient place of such person's choice, in the presence of an interpreter or a special educator, as the case may be; b) the recording of such information shall be videographed.		
4	Recording of a statement by police for offence of Rape	Sec 176- Procedure for investigation. Provided further that in relation to an offence of rape, the recording of statement of the victim shall be conducted at the residence of the victim or in the place of her choice and as far as practicable by a woman police officer in the presence of her parents or guardian or near relatives or social worker of the locality and such statement may also be recorded through any audio-video electronic means including mobile phone.	Optional	Residence of victim/any place of Choice of victim
5	Videography recording of the Scene of Crime	Sec 176 Procedure for investigation Sub-section (3) -	Optional as of now But Mandatory from the date notified by State Govt. within 5 years of 1st July 2024	Scene of Crime

grand he

				D-I'
6	Examination	Sec 180 - Examination of witnesses	Optional	Police
0	of witness by	by police.		station or
	police	(3) The police officer may reduce into		any other
	ponee	writing any statement made to him in		place
		the course of an examination under this		
		section; and if he does so, he shall		
		make a separate and true record of the		
		statement of each such person whose	Sec. 15	
}		statement of each sach person		
		Provided that statement made under		
		this sub- section may also be		
		this sub- section may also be		
		recorded by audio video electronic		
		means.	Ontional	At the Court
7	Recording of	Sec 183(1)- Recording of confessions	, opinonia	of Magistrate
	confessions	& statements by magistrates.		4
	& statements	Provided that any confession		
	by	statement made under this sub-section	THE STATE OF THE S	
	magistrates.	may also be recorded by audio-video		
		electronic means in the presence of		
		the advocate of the person accused of		
		an offence:	Mandatory	
			Mandatory	
	ii ii	Sec 183(6)(a)- Provided also that if the	a week	* 3
	,	person making the statement is		
		temporarily or permanently, includity.		
		or physically disabled, the statement		
		made by the person, with the	244	
1.	i a i	accietance of an interpreter or a special		
		educator, shall be recorded through		
		audio-video electronic means		
		preferably by mobile phone.	The state of the	Place of
8	Orders for	Sec. 497- Order for custody and	Direction is for the	custody of
8	custody and	disposal of property pending trial in	Court:	property or
	Disposal of	contain cases	Photograph	as directed
	Dispose	(3) The Court or the Magistrate shall	mandatory	by the court.
	property		1	by the court
		is necessary videograph on mobile	Videography optional	
		phone or any electronic media, of the	M	
		property referred to in subsection (1).	i	
		property referred to in succession		

गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में इस मुख्यालय के पत्र संख्या डीजी-सात-सा0सं0 (विविध-02)/2025 दिनांकित 11.01.2025 द्वारा प्रदेश के किमश्नरेट्स को BNSS, 2023 के अधीन विवेचना एवं फॉरेन्सिक विशेषज्ञों द्वारा घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण तथा वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी सम्बन्धी प्राविधानों के शत प्रतिशत अनुपालन हेतु तथा प्रदेश के शेष जनपदों में घटनास्थल फोटोग्राफी सम्बन्धी प्राविधानों के शत प्रतिशत अनुपालन हेतु तथा प्रदेश के शेष जनपदों में घटनास्थल का फॉरेन्सिक विशेषज्ञों द्वारा स्थलीय निरीक्षण तथा वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी प्रथम चरण में अपराध की का फॉरेन्सिक विशेषज्ञों द्वारा स्थलीय निरीक्षण तथा वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी प्रथम चरण में अपराध की

गम्भीरता के क्रम में जनपद स्तर पर उपकरणों एवं मानव संसाधन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः प्रदेश के समस्त पुलिस आयुक्तों को निर्देशित किया जाता है कि अपने किमश्नरेट के सात वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर फॉरेन्सिक विशेषज्ञ द्वारा अनिवार्य रूप से घटनास्थल निरीक्षण तथा घटनास्थल की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी कराते हुये BNSS की धारा 176(3) का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायें।

प्रदेश के जनपदीय विरष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को यह निर्देशित किया जाता है कि यदि सात वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय सभी मामलो हेतु स्थलीय निरीक्षण हेतु फॉरेन्सिक टीम उपलब्ध न हो सके तो जनपद स्तर पर उपलब्ध उपकरणों एवं मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुये सात वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अधिक से अधिक मामलों में घटनास्थल का फॉरेन्सिक विशेषज्ञों द्वारा स्थलीय निरीक्षण तथा वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी कराना सुनिश्चित करें।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वर्णित उपरोक्त प्राविधानों के क्रम में पुलिस अधिकारी प्रत्येक तलाशी,जब्ती, निरीक्षण घटनास्थल, अभिलिखित करने के दौरान संकलित डिजिटल साक्ष्यों एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों को वर्तमान में प्रचिलत ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कर शत प्रतिशत अपलोड करेंगे एवं यथा आवश्यकता FIR से लिंक करना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी अपेक्षा की जाती है, कि किमश्लरेट/जनपद स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर सभी अधीनस्थ अधिकारियों, थानाध्यक्षों एवं विवेचकों को उपरोक्त प्राविधानों से भली भाँति अवगत कराते हुये उनका सम्यक अनुपालन अपने निकट पर्यवेक्षण में सुनिश्चित करायें।

Gamis

(राजींव कृष्णी) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

 समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.समस्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2.समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।